

## विशेष गुणनफल तथा गुणनखंडन

**Q.1)** गुणनखंड कीजिए।

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| (i) $7x + 7y$             | (ii) $6x + 4y$              |
| (iii) $ax^2 + bx$         | (iv) $8x^2 y + 10xy^2$      |
| (v) $12a^2b + 15ab^2$     | (vi) $a(b - c) + d(b - c)$  |
| (vii) $x(x-7) - 9(x - 7)$ | (viii) $x^2 + 7x + 2x + 14$ |
| (ix) $x^2 - 4x + 5x - 20$ | (x) $x^2 - 3x - 2x + 6$     |
| (xi) $x^2 + 3x - 5x - 15$ |                             |

**Q.2)** निम्न के गुणनखंड कीजिए।

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| (i) $100 - 25p^2$ | (ii) $9x^2 + 24xy + 16y^2$ |
|-------------------|----------------------------|

**Q.3)** निम्न के गुणनखंड कीजिए।

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| (i) $4x^2 - 4x + 1$       | (ii) $X^2 - 25$    |
| (iii) $x^2 - 9$           | (iv) $x^2 - 16$    |
| (v) $25x^2 - 16y^2$       | (vi) $100 - 25p^2$ |
| (vii) $(2x + 1)^2 - 9x^2$ |                    |

**Q.4)** गुणनखंड कीजिए।

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (i) $x^4 - 81y^4$           | (ii) $x^2 - y^2 + 6y - 9$           |
| (iii) $9x^2 + 24xy + 16y^2$ | (iv) $6p^2 - 15pq + 27q$            |
| (v) $1 - 256y^8$            | (vi) $a^8 - 47a^4 + 1$              |
| (vii) $x^6 - 729y^6$        | (viii) $3a^6 + 12a^4b^2 + 12a^2b^4$ |

**Q.5)** गुणनफल ज्ञात कीजिए।

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (i) $102 \times 102$           | (ii) $103 \times 103 \times 103$ |
| (iii) $998 \times 998$         | (iv) $157 \times 143$            |
| (v) $99 \times 99$             | (vi) $94 \times 95$              |
| (vii) $99 \times 99 \times 99$ | (viii) $105 \times 105$          |
| (ix) $71 \times 71 \times 71$  |                                  |

**Q.6) सरल कीजिए।**

(i)  $\frac{875 \times 875 \times 875 + 125 \times 125 \times 125}{875 \times 875 - 875 \times 125 + 125 \times 125}$

(ii)  $\frac{467 \times 467 \times 467 + 533 \times 533 \times 533}{467 \times 467 - 467 \times 533 + 533 \times 533}$

**Q.7) गुणनखण्ड कीजिए।**

(A)  $x^2 + 11x + 24$       (B)  $10y^2 + 11y - 6$

**Q.8) निम्नलिखित का म. स ज्ञात कीजिए।**

(i)  $27x^3y^2$  और  $3xy^3$       (ii)  $x^2 + 4x + 4$  और  $x + 2$

(iii)  $x^2 - 1$  और  $x^4 - 1$       (iv)  $x^3 - y^3$  और  $x^2 - y^2$

(v)  $48y^2x^9$  और  $12y^5x^5$       (vi)  $(x + 1)^3$  और  $(x + 1)^2(x - 1)$

(vii)  $6(x^2 - 3x + 2)$  और  $18(x^2 - 4x + 3)$

(viii)  $30(x^2 - 3x + 2)$  और  $50(x^2 - 2x + 1)$

**Q.9) निम्नलिखित का ल. स. ज्ञात कीजिए।**

(i)  $4x^2y$  और  $x^3y^2$

(ii)  $(x - 2)(x^2 - 3x + 2)$  और  $x^2 - 5x + 6$

(iii)  $(x + 1)^3$  और  $(x + 1)^2(x - 1)$

(iv)  $18(x + 2)^3$  और  $24(x^3 + 8)$

(v)  $25x^3y^2$  और  $15xy$

(vi)  $x^4 + x^2y^2 + y^4$  और  $x^2 + xy + y^2$

**Q.10) दो बहुपदों का म. स.  $(x - 2)$  है, उनका ल. स.  $x^3 + 2x^3 - 8x - 12$  है, यदि इनमें से एक बहुपद  $x^3 - 8$  है तो उन दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए।**

